



**1-लूट की घटना कारित करने का एक और वांछित आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 24-08-2022 को वादी श्री प्रवेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री ब्रजवाशी लाल निवासी नवीन नगर थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ने मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का बैग (जिसमें 1,05,200/- रुपये) को लूटकर ले जाने के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-694/2022 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 05-11-2022 की रात्रि में निरीक्षक अपराध श्री रमेश चन्द्र थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त विवेक सागर पुत्र सुनील कुमार निवासी निकट शिव सैनी मंदिर हरथला थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 10,000 रुपये व एक मोबाईल बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 411 भा0द0वि0 की बढोतरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक अभियुक्त को पूर्व में 11,670 रुपये व एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

**2-गर्भपात कराने का आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 16-09-2022 को वादिनी निवासी थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की इच्छा के विरुद्ध वादिनी का गर्भपात कराने व नन्दोई द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0- 800/2022 धारा 376/313 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06-11-2022 को उ0नि0 श्री उज्ज्वल राणा थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त दीपक पुत्र फूल सिंह निवासी अमन विहार सुल्तानपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया।

**3-गौवंशीय पशु की हत्या करने एक और अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कांठ:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 01-11-2022 को वादी श्री उदय सिंह पुत्र श्री थान सिंह निवासी ग्राम फोल्डा पट्टी थाना छजलैट, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा गौवंशीय पशु की हत्या करने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 400/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06-11-2022 को उ0नि0 श्री ललित चौधरी थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त शमशाद पुत्र अली हुसैन निवासी ग्राम अधमपुर थाना कांठ, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 02 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है।

**4-नाबालिग का निकाह कराने व दुष्कर्म करने के आरोपी सहित 02 गिरफ्तार, थाना मूढापाण्डे:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 04-11-2022 को वादी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का निकाह कराने व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना मूढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0-329/2022 धारा-376 भा0द0वि0 व धारा- 3/4 पोक्सो एक्ट व धारा- 9/10/11 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0 2006 व धारा- 75 जुवेनाईल जस्टिस एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06-11-2022 को व0उ0नि0 श्री धर्मपाल सिंह थाना मूढापाण्डे द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1-फैसल पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम आंवला घाट थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद 2-इमाम अमजद अली पुत्र नन्हे हुसैन निवासी ग्राम गुलडिया थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**5-नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 05-11-2022 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुस कर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाना तथा अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने तथा वादी द्वारा अपनी पुत्री मांगने पर वादी को जाति सूचक शब्द बोलते हुए गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने व वादी की पुत्री को कमरे में बन्द कर देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-493/2022 धारा 452/363/376/342/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द/3(1)ध/3(2)V SC/ST एक्ट व 3/ 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06-11-2022 को उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त पुनित पुत्र नरेश सिंह ग्राम अस्लेमपुर थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

\*नोट:- अपहृता को पूर्व में सकुशल बरामद किया गया।\*